

<b>जल प्रतिबंध के संबंध में क्या करें और क्या न करें</b>	
वर्तमान चरण 4 जल प्रतिबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित की अनुमति नहीं है:	
<b>सभी प्रकार के बाहरी जल उपयोग पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।</b>	
<b>इस समय यह न करें:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• शहर के पानी से लॉन, बगीचे, फूल, पेड़ और झाड़ियों को सींचना</li> <li>• आउटडोर पूल या हॉट टब भरना</li> <li>• बाहरी सतहों को धोना, जिनमें शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ खिड़कियाँ</li> <li>○ बाहरी भवन सतहें</li> <li>○ फुटपाथ, ड्राइववे या पैदल मार्ग</li> </ul> </li> <li>• फव्वारे या सजावटी जल सुविधाएँ भरना</li> <li>• अपनी कार को ड्राइववे या सड़क पर धोना</li> <li>• निर्माण कार्यों जैसे ग्रेडिंग, कंपैक्शन या डस्ट कंट्रोल के लिए पानी का उपयोग करना</li> </ul>	
इस दौरान आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद।	
<b>और अधिक करना चाहते हैं?</b>	
घर के अंदर पानी के उपयोग और अनावश्यक उपयोग को कम करने से हमारे जल उपचार संयंत्रों, नदियों और जलाशयों को मांग की पूर्ति करने में मदद मिलेगी।	
<b>क्या आप निम्नलिखित तरीकों से अपने घर के अंदर पानी के उपयोग को कम करने में मदद कर सकते हैं:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन का उपयोग केवल आवश्यक होने पर और पूर्ण लोड के साथ करना</li> <li>• ह्यूमिडिफायर, आईस मशीनें और स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम को बंद करना</li> <li>• अपनी प्लेट से भोजन को धोने की बजाय इसको साफ़ करना</li> <li>• सब्जियों और फलों को आंशिक रूप से भरे सिंक या बर्तन में धोना और फिर उन्हें जल्दी से धोना</li> <li>• अपने फ्रिज में पीने के पानी का प्रबंध रखें। बर्फ़ जैसा ठंडा पानी पाने के लिए नल न चलाएं</li> <li>• दाँत साफ़ करते या दाढ़ी बनाते समय नल बंद कर दें</li> <li>• स्नान को तीन मिनट या उससे कम तक सीमित रखें और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हों तो बाथ में कम पानी रखें (उदाहरण के लिए, गतिशीलता संबंधी चुनौतियों वाले लोग)।</li> </ul>	